



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246883
CG-DL-E-30062023-246883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 379]
No. 379]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2023

सा.का.नि. 468(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत रेल संरक्षा आयोग में मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के ग्रुप 'ए' के पद पर भर्ती की पद्धति में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय (मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) वह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रारंभिक विधान.**—मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त के पद धारण करने वाले पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त किए गए माने जाएंगे और इन नियमों के प्रारंभ से पहले उक्त पद पर इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं परीक्षा, पुष्टि, पदोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखी जाएंगी।
- पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं इत्यादि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त	* 01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, राजपत्रित ग्रुप 'ए' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 (₹ 182200-224100)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	आमेलन द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>आमेलन:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी क्षेत्र में स्नातक डिग्री प्राप्त भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर्स सेवा, भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियर्स सेवा और भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी और:</p> <p>(क) (1) पैतृक संवर्ग/ विभाग या समकक्ष में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना; या</p> <p>(2) ग्रेड में नियुक्ति के बाद लेवल 14 (₹ 1,44,200/- - 2,18,200/-) या पैतृक संवर्ग में समकक्ष या विभाग में पाँच वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>(ख) मेट्रो रेल संगठन में कम से कम एक वर्ष कार्य का अनुभव।</p> <p>नोट : आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
लागू नहीं

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-75/2/2018-आर.एस.]

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2023.

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' post of Commissioner of Metro Railway Safety in the Commission of Railway Safety under the Ministry of Civil Aviation, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Commissioner of Metro Railway Safety) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—The incumbents holding the posts of Commissioner of Metro Railway Safety, who were appointed on the regular basis to the said post before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed to the said posts under these rules and the services rendered by them in the said post before such commencement shall be taken into account for the purposes of probation, confirmation, promotion, etc.

3. Number of posts, Classification and level in the pay matrix. The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. .— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Commissioner of Metro Railway Safety	*1 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "A", Gazetted Non-ministerial	Level-15 (Rs. 182200 – 224100) in the pay matrix	Not applicable

Age-limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By absorption

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(11)
Absorption: Officers of the Indian Railway Service of Engineers, Indian Railway Service of Mechanical Engineers, Indian Railway Service of Electrical Engineers, Indian Railway Service of Signal Engineers and Indian Railway Traffic Service having Bachelors degree in any discipline from a recognised University or institution and: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or equivalent; or (ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level 14 (Rs. 1,44,200/- - 2,18,200/-) or equivalent in the parent cadre or department.

(b) At least one year experience of working in a Metro Railway organisation.

Note: The maximum age-limit for appointment by absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

(12)

Not applicable

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-75/2/2018-RS]

RUBINA ALI, Jt. Secy.